NIRAJ ISPAT INDUSTRIES LIMITED

CIN: L27106DL1985PLC021811

Date: 09.09.2021

To,

The Manager,
NSE - Corporate Office
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai - 400051

Subject: Disclosure of issuance of Notice of AGM

Dear Sir,

With reference to captioned subject, please find the enclosed with the clippings of English Newspaper "Financial Express" and Hindi Newspaper "Jansatta" regarding Notice of 36^{th} AGM which will be held on 30^{th} September, 2021.

Kindly consider and take our submission in your records.

Thanking You. Yours faithfully

For and on behalf of the Board of Directors For NIRAJ ISPAT INDUSTRIES LIMITED

For Niraj Ispat Industries Ltd.

Director/Auth. Sign.

Chaitanya Chaudhry

DIN: 06813394

Designation: Director and CEO Address: KD-46 Kavi Nagar Ghaziabad 201002 UP Estate, Panday

Nagar, Acharya

Niketan Market

FINANCIAL EXPRESS

The Federal Bank Ltd. FEDERAL BANK P 35 & 36, Prabhi Estate, Pandav Nagar, Your Perfect Banking Partner

Regd. Office. Alwaye, Kerala Acharya Niketan Market, New Delhi-110091 NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularised so far in spite of repeated

notices, will be put for sale in the branch on or after 22/09/2021 as shown below: Name & A/c. Number Branch / Venue: Arun Kumar 14786100026275, Ashish Kumar 1478610002605 The Federal Bank 14786100026648. Ashok Kumar 14786100026440 Mayur Vihar Branch 14786100030558, Atul Kumar 14786100026473, Bharat Sair P 35 & 36, Prabhi

14786100026226 Bhupender Singh 14786100025996, Chandra Kant Mishra 14786100026549, Girijan Tiwari 14786100026010 Hari Das 14786100026531, Harish Kumar 14786100026325 Hemant Kumar 14786100026614, Jyoti Gupta New Delhi-110091 14786100022357, Kamla Devi 14786100026176, Naresh Kumar 14786100026390 14786100026515, Neetu Verma 14786100025814, Praveen Jain 14786100026366, Radhika 14786100025889, Rajesh 14786100026408, Savita Sabharwa 14786100026085, Shivani Gupta 14786100026135, Sidhartha Dedha 14786100026382, Vikas Dedha 14786100026606, Vikram Raiswal 14786100026507

Branch Manager, (The Federal Bank Ltd.) Place: New Delhi Date: 07.09.2021

PRAG BOSIMI SYNTHETICS LIMITED CIN: L17124AS1987PLC002758

Regd Off.: House No.4, Ambikagiri Nagar, Milan Path, R. G. Baruah Road, Guwahati - 781 024. Corp Office: R-79/83, Laxmi Insurance Building, Sir P.M. Road, Fort, Mumbai - 400001. Tel: 022 22660301 Website: www.pragbosimi.com E-mail : secretarial@bosimi.com **Notice of Annual General Meeting (AGM)**

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Wednesday, the 29th day of September 2021 at 3.00 P.M. at through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as stated in the Notice of AGM. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22nd September 2020 to 29th September 2021 (both days inclusive) for such purpose in terms of Section 91 of the Companies Act, 2013.

Annual Report 2020-21 and Notice convening the said AGM together with instructions for e-voting has already been dispatched to the Shareholders of the Company through email, on 6th September 2021 and the same is also available at the website of the Company www.pragbosimi.com and can be downloaded from there or alternatively can be downloaded from https://www.evoting.nsdl.com

The shareholders are requested to register their email address and change therein from time to time by writing to RTA/Depository. In terms of Section 108 of the Companies Act 2013, read with Rule 20 of

Companies (Management and Administration) amended Rules 2015, and Regulation 44 of SEBI LODR Regulations, 2015, the Company has arranged facilities for members to exercise their rights to vote on the resolution proposed to be considered at the said AGM may be transacted by casting of votes by the members using electronic voting system from a place other than that of the venue of the aforesaid AGM (remote e-voting) which will be managed by National Securities Depository (India) Ltd. (NSDL). The remote e-voting will commence on Sunday, Sept 26th, 2021 (9.00 AM)

and will end on Tuesday, Sept 28, 2021 (5.00 pm). During the e-voting period, members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e. 22nd September 2021, will be eligible to cast their vote electronically. Detailed instructions pertaining to e-voting. Members may please refer Notes to Notice of the Annual General Meeting. In case of gueries or grievances pertaining to the e voting procedure, Members may get in touch with RTA of the Company. The facility of voting through evoting shall also be made available after the AGM to the Members through NSDL Portal for half hour. Members, who

have not casted their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right to vote after the Meeting through evoting. For those members, who have acquired shares after dispatch of AGM Notice; can exercise their voting rights in the same manner as indicated in

the Notes to Notice and can ask RTA to provide AGM Notice together with Annual Report through email. For Queries/grievances related to remote e-voting, members may refer to the following person -

Ashok Sherugar, AVP - Technology Group; Address - Link Intime India Private Limited C 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400083 49186000/7506054546, Email ID: evoting@linkintime.co.in,

> ashok.sherugar@linkintime.co.in For Prag Bosimi Synthetics Limited.

> > **Raktim Kumar Das**

Date: 6th September, 2021 Place: Mumbai

Whole Time Director DIN No.: 05115126

ICL ORGANIC DAIRY PRODUCTS LIMITED

REGISTERED OFFICE: A-105, 3RD FLOOR, SECTOR-63, NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH INDIA-201301 CIN: L74120UP2013PLC055187 Phone: 0120-4544142, 4544143, Website: www.icldairy.co.in

Notice to members regarding the 08th AGM

Notice is hereby given that the 08th Annual General Meeting (AGM) of the Members of ICL ORGANIC DAIRY PRODUCTS LIMITED ('the Company') is scheduled to be held on Thursday, 30th September, 2021 at 1.00 P.M. through Video Conferencing ("VC") /Other Audio Visual Means ("OAVM") ONLY without the physical presence of the members at a common venue, in compliance with the Companies Act, 2013 and MCA Circulars dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and January 13, 2021 and SEBI Circular dated 12th May, 2020 and January 15, 2021 to transact the business set out in the Notice convening the 08th AGM. The Notice of the 08th AGM and the Annual Report is available on the Company's website at www.icldairy.co.in and on the website of BSE at www.bseindia.com. The Dispatch of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2020-21 has been completed by 06th September, 2021 by

date i.e 20th August, 2021. Book Closure for AGM:

Notice is further given that pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 24th September, 2021 to Thursday, 30th September, 2021 (both days inclusive).

Voting through Electronic Mode:

Notice is further given that pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act. 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its Members the facility to exercise their right to vote by electronic means (*remote evoting") on the resolutions proposed to be considered at the 08th AGM of the Company. The Company has engaged Central Depository Services Limited ("CDSL") as the Agency to provide e-voting facility. The members will also be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM and vote electronically during the meeting through the CDSL e-Voting system by launching the URL https://www.evotingindia.com. The detailed procedure for the same is mentioned in

 Remote e-voting shall commence from Monday, 27th September, 2021 (9:00 a.m.) and shall end on Wednesday, 29th September, 2021 (5:00 p.m.) beyond

2021;

beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date i.e. 23rd September, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or evoting during the AGM. Members who have acquired shares after the dispatch of Notice but before the cut-off date may obtain the User Id & Password by sending a request at organicipo@gmail.com or helpdesk.evoting@cdslindia.com;

their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again Members who have not cast their votes through remote e-voting can vote through evoting during the AGM. The detailed procedure of e-voting during the AGM is set out in the Notice of the ensuing AGM;

5. Ms. Neeta Sinha, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and voting at the AGM in a fair

6. In case of any queries you may write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai

For ICL Organic Dairy Products Limited Place: Uttar Pradesh Roop Kishore Gola Date: 06th September 2021

financialexp.epap.in



NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that:

- The 44th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Escorts Dealers Development Association Limited ("Company") will be held on Wednesday, September 29, 2021 at 03:00 p.m. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as "relevant circulars") to transact the business as set forth in the Notice calling the AGM. Electronic Copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2020-21
- will be sent to the members. These documents will also be available on website of CDSL i.e. www.evotingindia.com
- 3. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM. manner of casting vote through remote e-voting.

Escorts Dealers Development Association Limited CIN: U51909HR1901PLC008636 Regd Office: 18/4, Mathura Road, Faridabad, Harvana - 121 007 Phone: 0129-2225216 E-mail: statutoryfiling@escorts.co.in

By the order of the Board For Escorts Dealers **Development Association Limited** Shenu Agarwal

NIRAJ ISPAT INDUSTRIES LIMITED CIN: L27106DL1985PLC021811,

Rui Mandi, Sadar Bazar, Delhi-110006 Phone: 011-23551821, 0120-6526390 E-mail: nirajispatindustries@gmail.com, Website: www.nirajispat.in NOTICE

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, 30th September, 2021 at 11:30 A.M. at 5140/41/34 F/F Chaudhary Market, Gali Peti Wali, Rui Mandi, Sadar

To transact the Ordinary Business and Special Business as set out i the Notice of the AGM.

In compliance with Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (Collectively called "relevant circulars), the Notice of the AGM and Annual Report 2020-21 is being sent only through electronic mode to those member of the company whose email registered with Company / RTA on September 03, 2021. Members may note that the Company will not send physical/ hard copies of the Annual Report 2020-21 and Notice of AGM. Members holding shares in physical mode who have not registered/ updated their email addresses with the Company, are requested to register/ update the same with the company's Registrar and Share

as 'RTA') at compliances@skylinerta.comor click http:/ www.skylinerta.com/submit-document-to-rta.php and member who holdings shares in dematerialized modeupdated their email addresses with their Depository Participants. Please note that Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2020-21 are also available on the Company's website at www.nirajispat.inand on the website of the Stock Exchange i.e.

National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and

at website of NSDL also evoting@nsdl.co.in. Members holding shares as on cut- off date i.e. Friday, 24th September 2021 may cast their vote electronically on the ordinary business and special business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). The remote e-voting period shall commence on Monday, 27th September, 2021(09:00 A.M.) till Wednesday, 29th September, 2021 (5:00 P.M. E-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for remote e-voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change

The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cutoff date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting through poling papers. A person, who acquires shares and become shareholder of the Company after communication of the notice and holding shares as of the cut off date can do remote e-voting by obtaining the login - id and password by sending an email to compliances@skylinerta.com by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID No. However, if such shareholder i already registered with NSDL for remote e-voting then existing user -id and password can be used for casting your vote.

The Company has appointed Mr. Vivek Kumar, Practicing Company Secretary of V Kumar & Associates as the Scrutinizer to Scrutinise the e- voting process in a fair and transparent manner.

In case you have any grievances connected with e-voting, please refer the e-voting manual/ Frequently Asked Questions (FAQs) available at evoting@nsdl.co.in or contact Mr. Virender Kumar Rana, Director, Skyline Financial Services Private Limited., Registrar of Transfer Agent, D-153 A. 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi 110020 at telephone 011-40450193 to 97 and email at compliances@skylinerta.com. Members may also write to the Company through email at nirajispatindustries@gmail.com. For and on behalf of the Board of Directors

Notice is hereby given that:

For NIRAJ ISPAT INDUSTRIES LIMITED

Name : CHAITANYA CHAUDHRY DIN: 06813394 Place: Delhi Designation : Director and CEQ

ISF LIMITED

CIN: L74899DL1988PLC076648

Regd. Office: 611, 6th Floor, Pragati tower, Rajendra Place, New Delhi- 110008

E-mail ID: Info@isflimited.in | Website: https://isflimited.in/team.php

NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING

E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

The 33rdAnnual General Meeting (AGM) of members of the Company will be held or

Thursday, 30th Day of September, 2021 at 02:30 P.M. through video conferencing (VC)

or other audio visual means (OVAM), to transact the business as set forth in the Notice

of AGM, In compliance with all applicable provision of Companies Act, 2013 and the

rules made there under and Securities Exchange Board of India ("SEBI") (listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General

Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') vide its Circular No. 14.

2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/ 2020 dated April 13, 2020, Circular No.

20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021

(collectively referred to as 'MCA Circulars') and Securities Exchange Board of India

("SEBI") vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020

and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021

(collectively referred to as "SEBI Circulars") has permitted the holding of the AGM

through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual means ('OAVM'), without the

physical presence of the members at a common venue. Members will be able to attend

the AGM through VC/OAVM or view the live webcast at www.skylinerta.com. Member

participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum

financial statement for the Financial year 2020-21, along with Board's Report, Auditor's

Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the

Members of that Company/ Depository Participant(s) on 03-09-2021. The requirement

for sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vides

MCA Circulars and the SEBI Circular. The aforesaid documents will also be available

on the website of the company at https://isflimited.in/team.php and can also be

accessed from the website of Stock Exchange i.e, BSE Limited at www.bseindia.com

B. The Register of members and the Share Transfer Books will closed from the 18th

September, 2021 to 30th September 2021 (both days inclusive) for the purpose of

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), the

Company is providing its members the facility to cast their vote electronically from a

place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), provided by NSDL and the

business may be transacted through such voting, on all the resolutions set forth in the

I. Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting.

II. The remote e-voting shall commence on 27nd day of September, 2021 at 9:00 A.M.;

IV. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the

VI. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the

The member may update or register their email with the company's RTA's Website on

info@skvlinerta.com for the upcoming AGM if the company to be held through video

While sending the request, kindly keep the subject as update register the Email ID

(mention your DP id/Client ID/Folio No.) and also send your self-certified copy of Pan Card.

Note-Member may please intimate immediately any change in their email address.

For ISF Limited

Ekta Mundhra

Company Secretary

Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-

off date i.e. Friday, 24th September, 2021 may mail to the company's RTA on

III. The remote e-voting shall end on 29th day of September, 2021 at 5.00 P.M.;

V. Facility for voting through poll shall also be made available during the AGM.

and Registrar and Transfer agent of the Company i.e, www.skylinerta.com.

2. In compliance with the relevant circulars, the notice of the 33rd AGM and the standalone

under Section 103 of Companies Act, 2013.

Annual General Meeting.

Notice of AGM:

Date:06/09/2021

Place: New Delhi

Voting through Electronic Mode:

AGM is Friday, 24th September, 2021.

info@skylinerta.com to register the transfers.

Manner of Registering and updating email addresses:

conferencing and /or other Audio Visual means.

Address: KD-46 Kavi Nagar Ghaziabad 201002/UP

AMS POLYMERS LIMITED (Formerly, SAI MOH AUTO LINKS LIMITED)

CIN: L34300DL1985PLC020510 Regd. Off.: C-582, Saraswati Vihar, Pitampura, Delhi -110034 Tel.: 011-27017987 Fax: 011-27017987

Email: polymersams@gmail.com, Website: www.amspolymers.com Notice of Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-voting Information

Notice is hereby given that the 36" Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 30" September, 2021 at 09:00 A.M.at the Registered Office of the Company, at C-582, Saraswati Vihar, Pitampura, Delhi -110034 to transact the business set out in notice dated 02 September, 2021 of the AGM. The Notice of AGM and Annual Report for the F.Y. 2020-21 has been sent to all the members through permitted mode on 06"September, 2021.

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 along with the applicable Rules made there under, it is hereby intimated that the Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from Friday, 24th September, 2021 to Thursday, 30* September, 2021 for the purpose of AGM:

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Company has provided electronic voting facility for transacting all the business items as mentioned in the AGM notice dated 02 September, 2021 through the Remote e-voting facility on the platform of National Securities Depository Limited (NSDL). Remote E-voting will commence on 27th September, 2021 at 09:00 A.M. and end on 29th September, 2021 at 5.00 P.M. No Remote e-voting shall be allowed beyond the said date and time.

The notice of the Annual General Meeting along with Remote e-voting instructions has also been displayed on the website of the Company www.amspolymers.com and on the website of the Agency www.evoting.nsdl.com. The Members of Company holding shares as on Thursday, 23" September, 2021 may

cast their Electronically through Remote E-voting platform of NSDL at www.evoting.nsdl.com or vote at the General Meeting through the Ballot Form. Members may participate in the General Meeting even after Remote E-voting but shall not be eligible to vote at the meeting. Voting, if exercised will be invalid and the vote caste through Remote E-voting will be considered. Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case members have any queries or issues regarding Remote e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions (FAQ) and Remote e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or write an e-mail to evoting@nsdl.co.in. Shareholders may contact Registrar & Share Transfer Agent, M/s MAS Services Limited, contact no. 011-26387281-83 or their respective Depositories for registration/updation of their email IDs and other matters.

Further members are also requested to register their email ID, PAN & bank accounts details with the RTA/Company. Necessary communication in this regard has already been sent separately to members by the company

For AMS Polymers Ltd.

Place: Delhi Date: 06th September, 2021

Chiranjivi Ramuka Company Secretary

SADHNA BROADCAST LIMITED [Formerly known as Chirau Broadcast Network Limited] CIN: L92100DL1994PLC059093 Regd. Office: 37, Second Floor, Rani Jhansi Road, Motia Khan;

Pahargani New Delhi 110055 Phone No.: 91-11-23552627, Email: "cbnl.delhi@gmail.com Website: www.sadhna.com NOTICE

September, 2021 at 4:00 P.M through video conferencing (VS)/other audio risual means (OAVM) In accordance with Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 ('MCA') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/ '9 issued, by SEBI ("circulars"), and owing difficulties involved in dispatching

physical copies, the Notice of the AGM and Annual Report 2020-21 has been sent to member of the company, whose email registered with Company RTA on September 06, 2021 Members may note that the Company will not send physical/ hard copies of the Annual Report 2020-21 and Notice of AGM. Since the AGM is being held through VC/ OAVM pursuant to the Circulars, Physical attendances of members has been dispensed with. Accordingly,

the facility for the appointment of proxies by the members will not be Members holding shares in physical mode who have not registered/updated their email addresses with the Company, are requested to register/ update

compliances@skylinerta.com. Please note that the aforesaid documents are also available on the Company's website at www.sadhna.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited and The Metropolitan Stock Exchange of India imited and at website of NSDL also evoting@nsdl.co.in

Companies Act, 2013 read with rule 20 of the companies (Managemen and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote by electronic means and the business as set out in the Notice may be transacted brough remote e-voting by NSDL. The members may note the following: Members holding shares as on cut-off date i.e. Wednesday, 22nd September, 2021 may cast their vote electronically on the ordinary

business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). The e-voting period shall commence on Sunday, 26" September, 2021 at 9.00 A.M. tillTuesday, 28th September, 2021 at 5.00 P.M.

AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM. The Company has appointed Mr. Vivek Kumar, Practicing Company Secretary of M/s V Kumar and Associates as the Scrutinizer to Scrutinize the evoting process in a fair and transparent manner

29th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of Annual case of any gueries, you may refer to the Frequently Asked Questions FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the

Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at he following toll free no.: 1800-222-990. For any further grievance related to the Remote E-voting, members may contact NSDL at the following contact information: Phone No.+91 22 24994545, +91 22 24994559 By order of the Board

For Sadhna Broadcast Limited Date: 06.09.2021

COMPANIES (INCORPORATION) **RULES, 2014** FORM NO. INC-26 [Pursuant to Rule 30 of Companies (Incorporation) Rules 2014] Advertisement to be published in Newspaper for the change of

Registered Office of the Company fron one state to another Before the Central Government Northern Region, Delhi In the matter of sub-section 4 of section

of the Companies (Incorporation) Rules in the matter of M/s ACGK CONSULTTECH ADVISORS PRIVATE LIMITED having its Registered Office at House No. 246, Ground Floor Gali

13 of the Companies Act 2013 and

clause (a) of sub-section (5) of Rule 30

No. 6. Rameshwar Nagar New Delhi North West DL 110033 Notice is hereby given to General Public that the company proposes to make the application to the Central Government under section 13 of the Companies Act 2013, seeking confirmation of alteration of Memorandum of Association of the company in term of special resolution passed at Extra ordinary General Meeting held on Wednesday, 1st Day of Septembe

2021 to enable the company to change

its Registered Office from *The National

Capital Territory of Delhi" to "State of

Andhra Pradesh* Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change, may deliver either on MCA portal (www.mca.gov.in) by filling investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the Regional Director at the Address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within 14 Days of date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned

Address of Registered Office: House No. 246, Ground Floor Gali No. 6 Rameshwar Nagar New Delhi North West

For and on behalf of ACGK Consulttech Advisors Private Limited Challa Alekhya Date: 06.09.2021 Directo Place : Delhi DIN: 08161464

Read. Office: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh.

Notice is hereby Given that the 27th Annual General Meeting ("AGM") MOONGIPA SECURITIES LIMITED ("the Company") is scheduled to be held on **Thursday, September, 30, 2021 at 04:30 p.m (IST)** through Video conferencing/ other audio visual means without the physical presence of the Members at the meeting, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to transact the business, as set out in the notice of the AGM. The dispatch of the Annual Report of the company for the Financial Year 2020-21 along with the AGM notice and E-voting procedure to the members was

is also being made available on the Company's website a www.moongipa.net and is also available on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Those members whose email IDs are not registered and those shareholders who are holding shares in physical form, are requested to register their email with Registrar & Transfer Agent i.e., compliances@skylinerta.com by writing an email either to the RTA at compliances@skylinerta.com or the Company at moongipas@gmail.com carrying the following details or through their espective depositories: Name as registered with the RTA/ Depository Address, email, copy of PAN, DPID/Client ID/Folio Number, Number of shares held, scanned copy of share certificate (front and back).

In compliance with the above said circulars, Section 108 of the Companies Act. 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015: The 27th AGM will be conducted through video conferencing (VC)/other

Audio-Visual means (OAVM) for this company has engaged its RTA-Skyline Financial Services Private Limited for making necessary arrangements and conducting the AGM through VC/OAVM using their Company is pleased to provide its shareholders e voting facility through Central Depository Services Limited (CDSL), to enable them to cast their

votes for the resolution proposed to be transacted at the AGM. (www.evotingindia.com). Company is pleased to provide its shareholders with facility to attend the AGM through video conferencing (VC)/other Audio-Visual means (OAVM)

through login into the website of CDSL (www.evotingindia.com). BOOK CLOSURE: Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Register of Members

(9:00 A.M.) and ends on 29th September, 2021 (5.00 P.M.). The cut-off date for determining eligibility to vote shall 24th September, 2021.

Members attending the meeting, who have not casted their vote by

remote e-voting, shall be eligible to exercise their right at the AGM. Members who have casted their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

facility of voting at the AGM.

For Moongipa Securities Limited Sanjeev Jain

Emergent Industrial Solutions Limited (Formerly Emergent Global Edu and Services Limited) CIN L80902DL1983PLC209722 Regd. Office: 8-B, 'Sagar', 6, Tilak Marg, New Delhi - 110 001 Phones: (91) (11) 2378 2022; Fax: (91) (11) 2378 2806

Email:sotl@somanigroup.com; Website:www.eesl.in Notice of 38" Annual General Meeting, Book Closure and E-voting

Notice is hereby given that the 38 Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, the 30" September, 2021 at 10.30.a.m. at at Supremework Coworking space, D-57, 100 Feet Rd, Pocket D, Chattarpur hills, Chattarpur Enclave, Chhattarpur, New Delhi, 110074 to transact the business as per notice. The Notice of AGM, Annual Report, instructions for E-voting, along with attendance slip and Proxy form has been sent to all the members by e-mail to those members whose e-mail address are registered/ updated with the Company/ Depository Participants /Depositories/Registrar & Transfer Agent (RTA). The requirements of sending physical copy of the Notice of the 38" AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA and SEBI Circulars.

The notice of AGM and Annual Report is also available on the Company website, www.eesl.in. All

documents referred to in the notice are open for inspection at the registered office of the Company

between 10.00 a.m. to 5.00 p.m. on all working days, except Saturday, up to the date of the AGM. Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI ("Listing Obligations and Disclosure Requirements") Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, the 23"September, 2021 to Thursday, the 30" September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. Pursuant to Section 106 of the Companies Act, 2013 read with the ruled framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide E-voting facility to all its members for transacting the business as set out in the Notice of the AGM. The

following information relates to voting through electronic means: 1. Agency providing E-Voting Facility NSDL (e-voting facility provided on the website

www.evoting.nsdl.com) Cut-off date (Member eligible to cast vote)

only if they are holding shares, on this date. 23.09.2021 Date and time of commencement of E-voting 27.09.2021 (Monday) from 9.00 a.m.

 Date and time of ending of E-voting 29.09.2021 (Wednesday) at 5.00 p.m. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 23"September 2021, may obtain the login ID and

password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote

through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. Mr. Neeraj Sharma Practising Company Secretary, New Delhi (CP No.23057) has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990. By the Order of the Board of Directors For Emergent Industrial Solutions Limited

Date: September6,2021 (Sabina Nagpal) Company Secretary and Law Officer Place: New Delhi

* SHRI KALYAN HOLDINGS LIMITED CIN: L67120RJ1993PLC061489

> Regd office: B-19, Lal Bahadur Nagar, Malviya Nagar, Jaipur-302017 (Raj.) Tel. No & Fax.: 0141-4034062, 0141-2554270 Website: www.shrikalyan.co.in, E-Mail: shrikalyan25@hotmail.com

NOTICE OF THE 29TH ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of SHRI KALYAN

HOLDINGS LIMITED ("the Company") is scheduled to be held on Wednesday, September 29, 2021 at 04:00 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), to transact such business as set out in Notice convening the 29th AGM of the In accordance with the General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with

General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/ P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), the Notice of the 29th AGM and Annual Report for the financial year 2020-21 have been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s). The electronic dispatch of Annual Report to Members has been completed on Friday. September 03. 2021. These documents are also available on the website of the Company at www.shrikalyan.co.in, website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at AGM. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date i.e. Wednesday, September 22, 2021, may cast their vote electronically through electronic voting system of the CDSL from a place other than venue of the AGM ("Remote e-voting"). A person whose name is recorded in the Register of Members maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. All the Members are hereby informed that the Business, as set out in Notice of 29th AGM will be transacted through voting by electronic means only (remote e-voting and e-voting during AGM).

 The remote e-voting period will commence on Saturday, September 25, 2021 (10:00 A.M.) and ends on Tuesday, September 28, 2021 (up to 5:00 PM). The remote e-voting module will be disabled by CDSL beyond 5:00 PM IST on September 28, 2021. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.

. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the Notice of the AGM is sent but holding shares as on the cut-off date i.e., Wednesday, September 22, 2021 may obtain the login id and password by sending a request at shrikalyan25@hotmail.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM; however, they shall not be eligible to vote at the meeting.

. The procedure of electronic voting is available in the Notice of the AGM. In case of queries/grievances relating to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at help section of www.evotingindia.com or call on toll free no.: 18002005533 or contact Ms. Shikha Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer, Shri Kalyan Holdings Ltd., B-19, Lal Bahadur Nagar, Malviya Nagar, Jaipur-302017 (Rajasthan), Contact details: +91 7340026655, E-Mail: shrikalyan25@hotmail.com.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 23, 2021 to Wednesday, September 29, 2021 (both days

For Shri Kalyan Holdings Limited Place: Jaipur Sd/- Jinendra Kumar Jain

Date: 06th Sept., 2021 (Whole-Time Director) DIN: 00168251

BHAGAWATI GAS LIMITED (Formerly known as Bhagawati Gases Limited)

Registered Office: Banwas, Khetri Nagar - 333504, Distt.-Jhunihunu, Rajasthan Corporate Office: S-492/A, Greater Kailash-I, New Delhi-110048 E-Mail ID: bhagwatigases@gmail.com; CIN: U24111RJ1974PLC005789 Website: www.bglgroup.in

NOTICE OF 47TH AGM. E-VOTING AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the 47[™] Annual General Meeting (AGM) of the members of Bhagawati Gas Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 30, 2021 at 11.30 A.M. at the registered office of the company situated at Banawas. Khetri Nagar-

333504, Distt.-Jhunjhunu, Rajasthan (Raj.) to transact the business as set out in the

Notice of AGM dated 14.08.2021. The Electronic copies of the Notice of the AGM along with Annual Report for the financial year 2020-21, has been sent to all the shareholders whose mail id registered with the company/ DPs Physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2020-21 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of the Notice of the AGM and the Annual Report for the

financial year 2020-21 has been completed on September 06, 2021 Further pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 & rules made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 24, 2021 to Thursday, September 30, 2021 (both days inclusive), for the purpose of 47th AGM of the Company.

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 & read with rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules. 2014 (as amended) made thereunder, the Company is providing e-voting facility to all the shareholders to enable them to exercise their right to vote by electronic means and the company has engaged the Central Depository Services (India)

Limited for providing aforesaid facilities. The Annual Report for the financial year 2020-21 and Notice of the AGM are available on the Company's website at www.bglgroup.in. Further, the e-voting platform will be open for voting from Monday, September 27, 2021 (9.00 A.M. IST) and ends on Wednesday, September 29, 2021 (5.00 P.M. IST). Shareholders of the company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Cut-off date i.e. Thursday, September 23, 2021, may cast their vote electronically in respect of business to be transacted at the AGM. The e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Those shareholders, who do not cast their vote through e-voting, may cast their vote through the ballot paper at the AGM. The members who have cast their vote by e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at AGM. Any person, who becomes a member of the Company after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date, may obtain the User id and password for e-voting by sending request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Further, the company has appointed Mr. Deepak Arora (FCS No. 5104), Proprietor of M/s Deepak Arora and Associates, Practicing Company Secretary, Jaipur as the Scrutinizer for conducting the electronic voting process and voting process at AGM, in a fair and transparent manner.

In case of any queries/grievances connected with electronic voting, members may be addressed to Mr. Anand Tirodkar on Tel: 022-23058615 or Ankit Bandivadekar on Tel: 022-23058615, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or toll free no 1800225533 at helpdesk.evoting@cdslindia.com.

NOTE: Please take note that all the shareholders that with effect from April 01, 2019, SEBI has prescribed that requests for effecting transfer of securities (except transmission or transposition cases) shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. Accordingly, we request you to convert your shareholdings from physical form to demat form at the earliest, in existing demat account or new demat account to be opened with any Depository Participant.

> Bhagawati Gas Limited Rakesh Samrat Bhardwai

For and on behalf of

Place : Jhunihunu Managing Director Date: 06.09.2021

electronic mode to only those shareholders whose email id is registered with the Registrar & Share Transfer Agent or the Depository Participants as on the cut-off

the Notice of the 08th AGM. In this regard, the members are further notified that:

which the remote e-voting shall be disabled; 2. Cut-off date for determining the eligibility to vote: Thursday, 23rd September

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of

4. Members may participate in the AGM through VC/ OAVM even after exercising

and transparent manner;

400013 or call on 022-23058542/43.

Date: 06/09/2021 Place: Faridabad Regd. Office: 5140/41/34 F/F Chaudhary Market, Gali Peti Wali,

Notice is hereby given that 27th Annual General Meeting of members of Sadhna Broadcast Limited will be held on Wednesday, 29th

the same with the company's Registrar and Share Transfer Agent Skyline Financial Services Private Limited (herein referred as 'RTA') at

Notice is further given that pursuant to the provisions of section 108 of the

Members of the company holdings shares either in physical or in Dematerialized form, as on the Cut -off date, may cast their vote either electronically during the remote e-voting period. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Compan will remain closed from Saturday, 18th September, 2021 to Wednesday,

Name: Tajinder Kaur DIN: 06799570 Designation: Managing Director Address: 24/27 Front Side, West Patel Nagar, New Delhi-110008

MOONGIPA SECURITIES LIMITED CIN: L74899DL1994PL057941

New Delhi - 110005. Tel: +91-011-41450121 Email: moongipas@gmail.com, Website: www.moongipa.net NOTICE

ANNUAL GENERAL MEETING, E VOTING AND BOOK CLOSURE

completed on Monday, September 06, 2021. The Annual Report has being sent only through electronic mode. The same

and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 27th September, 2021 to 30th September, 2021 (both days inclusive).

All Members are hereby informed that: The remote e-voting shall commence from 27th September, 2021

iv. Persons whose name is recorded in the Register of Members or in the register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on Cutoff date i.e. 24th September, 2021 only shall be entitled to avail the

Dated: Sept. 06, 2021 Place: New Delhi **Company Secretary and Compliance Officer**

In case of any queries / grievances relating to e voting, members may contact write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh dalvi (02223058738). By Order of the Board of Directors

New Delhi

The Members are hereby requested to note that:

भारत पहुंचे अफगान नागरिकों के लिए सरकार ने जारी किया आदेश

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 6 सितंबर।

अफगानिस्तान में अनिश्चितता की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले किसी भी अफगान नागरिक को गृह मंत्रालय की अनुमति के बगैर देश छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड CIN: L27106DL1985PLC021811 पंजी. कार्यालय: 5140-41/34. एफ/एफ चौधरी मार्केट, गली पेटी वाली. रुई मंडी सदर बाजार. दिल्ली-110006 फोन: 011-23551821, 0120-6526390 ई-मेल आईडी: nirajispatindustries@gmail.com, वेबसाईटः www.nirajispat.in

तदुद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी की 36वीं वार्षिक साधारण सभा गुरुवार, 30 सितम्ब 2021 को 11.30 बजे पूर्वा. में 5140-41/34 एफ/एफ चौधरी मार्केट, गली पेटी वाली, रुई मंडी सदर

बाजार दिल्ली-110006 में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सचना में वर्णित साधारण एवं विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। ਜਂ. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11

SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 के साथ पठित सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित सर्क्युलर नं 20/2020 तिथि 5 मई, 2020, सर्क्युलर नं. 02/2021 तिथि 13 जनवरी, 2021 तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और सेबी द्वारा जारी तथा सेबी द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य सर्क्यलरों (सामृहिक रूप से ''संबंधित सर्क्युलर्स'' वर्णित) के के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में ऐसे सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके इ मेल पते कम्पनी/आरटीए के साथ 3 सितम्बर, 2021 तक पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम की सूचना की कोई भौतिक/हार्ड कॉपी कम्पनी

भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने कम्पनी में अपने ईमेल पते पंजीकृत/ अद्यतन नहीं कराये हों, से अनुरोध है कि वे इसे कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड (यहां के बाद 'आरटीए' वर्णित) के पास compliances@skylinerta.com पर अथवा http:// www.skylinerta.com/submit-document-to-rta.php पर क्लिक करके पंजीकृत/ अद्यतन करा लें तथा जिन सदस्यों के पास डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर हैं वे अपने डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ अपने ई-

कृपया ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सुचना कंपनी की वेबसाइट www.nirajispat.in पर और स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की

वेबसाइट evoting@nsdl.co.in भी उपलब्ध है। कट-ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 को शेयर रखने वाले सदस्य नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य व्यवसाय और विशेष व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप रे अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 27 सितंबर, 2021 (9:00 पूर्वाह्न) से बुधवार, 29 सितंबर, 2021 (शाम 5:00) तक रहेगी।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद, गरस्य को बार में इसे बरलने की अनुमति नहीं ही जाएगी

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

कोई व्यक्ति. जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधि लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-सा बैठक में पोलिंग पेपर के माध्यम से मतदान करने का हकदार होगा। कोई व्यक्ति, जो शेयर अर्जित करता है और सचना के संचार के बाद कंपनी का शेयरधारक बन जाता है और कट ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह अपने फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर का उल्लेख करते हुए compliances@skylinerta.com पर ई-मेल भेजकर लॉगिन - आईडी और पासवर्ड प्राप्त करके रिमोट ई-वोटिंग कर सकता है। हालांकि, अगर ऐसे शेयरधारक पह से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो मौजुदा युजर-आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

कंपनी ने ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए वी कमार एंड एसोसिएट्स के प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव श्री विवेक कुमार को स्क्रुटिनाइजर के रूप में नियुक्त

यदि आपको ई-वोटिंग से संबंधित कोई शिकायत है, तो कृपया evoting@nsdl.co.in पर उपलब्ध e-voting manual/ Frequently Asked Questions (FAQs) देखें या श्री वीरेंद्र कुमार राणा, निदेशक, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अन्तरण एजेंट के रजिस्ट्रार, डी-153ए, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज -1, नई दिल्ली 110020 टेलीफोन 011-40450193 से 97 पर से संपर्क करें या compliances@skylinerta.com पर ई-मेल करें। सदस्य कंपनी को nirajispatindustries@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से भी लिख सकते हैं।

कृते एवं हिते निदेशक मंडल नामः चैतन्य चौधरी

DIN: 06813394 पद नामः निदेशक एवं सीईओ पता : केडी-46, कवि नगर, गाजियाबाद-201002, उ.प्र.

गृह मंत्रालय का निर्णय अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के करीब एक पखवाडे बाद आया है। भारत में आने वाले कई अफगान नागरिकों को अपने देश के नए शासकों से भय है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमित के बगैर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा किसी भी अफगान नागरिक को भारत छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले एफआरआरओ गृह मंत्रालय के पास भेजेगा।

अफगानिस्तान संसद की महिला सदस्य रंगीना कारगर को वैध दस्तावेजों के बावजूद दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से इस्तांबुल भेज दिए जाने के बाद यह आदेश आया है। सरकार ने अफगानिस्तान सहित सभी देशों के भारत में

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड

(पर्व में चिराय ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड विदित)

CIN: L92100DL1994PLC059093

पंजीकृत कार्यालय: 37, दूसरा तल, रानी झाँसी रोड, मोतिया खान,

पहाड़गंज, दिल्ली नई दिली-110055

ईमेल आईडी: cbnl.delhi@gmail.com,

वेबसाईट: www.sadhna.com, फोनः (011) 23552627

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 27वीं वार्षिक साधारण सभा बुधवा

29 सितम्बर, 2021 को 4.00 अप. मे विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीएस)/अन्य आडियो विजुअल

सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020 सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 र

साथ पठित सर्क्युलर नं. 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 ('एमसीए') तथा सर्क्युलर

सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/ पी/2020/79, सेबी द्वारा जारी ('सर्क्यलर्स')

अनुपालन में तथा भौतिक प्रतियों के प्रेषण में संलग्न कठिनाई को देखते हुए एजीएम की सचन

तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 कम्पनी के ऐसे सदस्यों को 6 सितम्बर 2021 को भेजी गई है जिनवे

ईमेल कम्पनी/आरटीए के पास पंजीकृत हैं। सदस्यगण ध्यान रखें कि कम्पनी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट

सक्युलर्स के अनुपालन में चुंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जा रही है सदस्य

की शारीरिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविध

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने कम्पनी के पास अपने ईमेल प

पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराये हैं, से अनुरोध है कि compliances@skylinerta.com प

कपया ध्यान रहे कि उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.sadhnabroadcast.com

तथा स्टॉक एक्सचैंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com तथ

मेटोपॉलिटन स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट के साथ हीं एनएसडीएल की

कम्पनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमवाली, 2014 के नियम, 20, यथा-संशोधित तथा विनियमन

2015 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में यह कम्पनी

इलेक्ट्रानिक माध्यमों से उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध

करा रही है तथा सुचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को एनएसडीएल की रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा

i कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार 22 सितम्बर, 2021 को शेयर धारित करने वाले सदस्य नेशनल

सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली द्वारा एजीएम की

सचना में निर्दिष्ट साधारण व्यवसायों पर इलेक्ट्रानिक तरीके से अपना मतदान कर सकते हैं। ई-

वोटिंग अवधि रविवार, 26 सितम्बर, 2021 को (9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा मंगलवार, 28

ii कट-ऑफ तिथि को भौतिक या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले कम्पनी वे

सदस्य रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक रूप से मतदान कर सकते हैं। जिन सदस्यों

ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान किये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एजीएम में

स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये कम्पनी ने श्री विवेक

सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 18 सितम्बर, 2021 से बुधवार 29 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस सिहत) तक वार्षिक साधारण सभा के उद्श्य से बंद रहेंगे।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउलोड

खंड में सदस्यों के लिये उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा सदस्ये

के लिये ई-वोटिंग युजर मैन्युअल देखें या अधोलिखित टोल फ्री नं.: 1800-222-990 पर

एनएसडीएल से सम्पर्क करें। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित आगे किसी भी समस्या के लिये सदस्य

पताः 24/27, फ्रान्ट साइड, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-11000

बोर्ड के आदेश

नामः तेजिन्दर कौ

DIN:0679957

पदनामः प्रबंध निदेशव

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के लिरं

कमार, वी कमार एंड एसोसिएटस के कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियन्त किया है।

कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट, स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जायेगी।

2020-21 तथा एजीएम सचना की हार्ड कॉपी नहीं भेजी जायेगी।

(यहां से 'आरटीए' वर्णित) के पास उसे पंजीकत/अद्यतन करा लें।

वेबसाईट evoting@nsdl.co.in पर भी उपलब्ध है।

निष्पदित किया जायेगा। सदस्यगण निम्नलिखित का ध्यान रखें:

सितम्बर, 2021 (5.00 बजे अप.) तक जारी रहेगी।

फिर से मतदान करने के लिये योग्य नहीं होंगे।

रह रहे नागरिकों का वीजा 'निःशुल्क आधार' पर 30 सितंबर तक बढा दिया है।

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पहले कई अफगान नागरिक भारत में छह महीने से ज्यादा समय और कई नागरिक मार्च 2020 में पहले पूर्णबंदी की घोषणा के समय से ही रह रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण देश में फंसे विदेशी नागरिकों का नियमित वीजा या ई-वीजा या ठहरने की अवधि को बिना जुर्माना लगाए 30 सितंबर तक बढाने का निर्णय किया है। इस तरह के विदेशी नागरिकों को एफआरआरओ को वीजा विस्तार के लिए आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। देश छोड़ने से पहले उन्हें बाहर जाने की अनुमति के लिए आवेदन देना पड़ सकता है जिसे एफआरआरओ बिना जुर्माने के मंजुरी देगा।

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेड (भारतीय रिजर्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) पो.ओं. आरबीएनएमएल, शालबनी—721132, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल दूरमाष : 03227-280176 / 280317; फॅक्स: 03227-280744 / 280222

खली निबंदा पछताछ (ओटीई)/राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (एनसीबी) दो भाग बोली प्रणाली के तहत अनुभवी, संसाधनपूर्ण, प्रतिष्ठित और बोनाफाइड आपूर्तिकर्ताओं / सेवा प्रदाताओं / एजेंसियों / ठेकेदारों (जैसे लाग् हो) द्वारा निम्नलिखित निविदाएं आमंत्रित की जाती है: –

 बीआरबीएनएमपीएल, शालबनी में हाई स्पीड पेपर कर्टिंग गिलोटिन मशीन की आपूर्ति, स्थापना कमीशनिंग, प्रशिक्षण और प्रदर्शन परीक्षण, निविदा सं. 020/साल/पीयुआर/2021-22 [अनुमानित

2. बीआरबीएनएमपीएल, शालबनी में पॉलीय्रेथेन (पीय्) सीमेंटयुक्त फर्श का कार्य हेत्. निविदा सं. 009 / साल / एमएमडी-सिविल / 2021-22 [अनुमानित लागत- ₹ 48.00 लाख]

के साथ-साथ रसायनों की आपूर्ति, निविदा सं. 011/साल/एमएमडी-अनुरक्षण/2021-22 [वार्षिक अनुमानित लागत- ₹26.00 लाख] 5. बीआरबीएनएमपीएल, शालबनी में फिनिशिंग ढिवीजन में विविध कार्यों के लिए अक्शल श्रम की आपूर्ति, निविदा सं. 012 / साल / एमएमडी—अनुत्सण / 2021—22 [वार्षिक अनुमानित लागत — ₹26.00 लाख]

www.brbnmpl.co.in पर जाएं। आगे विस्तार या संशोधनों के लिए यदि कोई हो, केवल हमारी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत -रतनपुर पमारान वि०ख० राजेपुर (फर्रुखाबाद) पत्रांक-6/मनरेगा/टेण्डर/प्रकाशन निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा सूचना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारण्टी योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्वीकृति कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु कार्यस्थल पर सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 05/09/2021 तक ग्राम पंचायत कार्यालय निविदा विक्रय की

| क्रमांक | कार्य का नाम | सामग्री | कुल अनुमानित लागत | निविदा प्रपत्र का मूल्य | कार्य होने क अनुमानित समय |
|---------|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | सुशील के दरवाजे से अंगद के दरवाजे तक मिट्टी नाली व इन्टरलाकिंग कार्य। | 331077 | 388166 | 500 | 7 दिन |
| 2 | पप्पू के मकान से बब्लू के मकान तक मिट्टी नाली व इन्टरलाकिंग कार्य। | 105373 | 227054 | 500 | ७ दिन |
| 3 | दिवारी के मकान से रामसिंह के मकान तक मिट्टी नाली व इन्टरलाकिंग कार्य। | 198565 | 236516 | 500 | 7 दिन |
| 4 | रावेन्द्र के मकान से आलोक के मकान तक मिट्टी नाली व इन्टरलाकिंग कार्य। | 339529 | 398387 | 500 | 7 दिन |
| नियम १ | नाली व इन्टरलाकिंग कार्य। एवं शर्तैः निविदादाता का जीएसटी व आयकर | विभाग में प | ांजीकरण हं | ोना आवश | यक है |

मुनीष यादव कीर्ति कुशवाहा सचिव

ग्राम पंचायत-रतनपुर पमारान ग्राम पंचायत-रतनपुर पमारान

''कोरोना रोकें; अपना हाथ साफ रखें, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का पालन करें'' दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (एसडीडब्ल्यू)-IV

तिथि: 6.9.2021

सीवेज शोधन संयंत्र, कोण्डली, दिल्ली-110096 फोन: 011-22613156, मो.: 9650290862, ईमेल: eesdw4.djb@nic.in प्रैस निविदा सूचना- एन.आई.टी. सं. 07(2021-22)/ईई (एसडीडब्ल्यू) IV

अपलोडिंग की की तिथि लागत∕धरोहर राशि तिथि/निविदा आईडी 1 10 वर्षों के एएमसी सहित दि.ज.बी. के विभिन्न 4.9.2021/2021 DJB 95,20,000.00 वर्तमान सरकारी मानकों के एसटीपी'ज में क्लॉथ डिस्क की आपूर्ति अनुसार ईएमडी में छूट है। लेकिन बोलीदाता को 1500/-207917 1 3.30 अप. तक संस्थापन, परीक्षण तथा कमीशनिंग ईएमडी छूट की जगह परिशिष्ट-I को भरना होगा इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

बिकंघम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L22100DL198314401

पंजी. कार्यालयः सी-125, जी/एफ लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024

फोन: 8527260705, वेबसाईट: www.buckingham.in

ई-मेल आईडी: buckingham1983@yahoo.com

ादुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत निर्मित

नियमों एवं समस्त प्रयोज्य प्रावधानों और सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020

परिपत्र नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र नं. 20/2020 तिथि 5 मई, 2020

परिपत्र नं. 02/2021 तिथि 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व

एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 एव

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) तथा सेबी द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य परिपत्रों (सामृहिक

रूप से ''प्रासंगिक परिपत्र'') सन्दर्भित के अनुपालन में एजीएम बुलाने की सूचना मे

निर्धारित व्यवसाय के लेन-देन के लिए बिकंघम इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों की 38वीं

वार्षिक साधारण सभा बृहस्पतिवार, 30 सितम्बर, 2021 को 3.00 अप. मे इसके पंजीकृत

कार्यालय सी–125, जी/एफ लाजपत नगर, नई दिल्ली–110024 पर आयोजित की जायेगी।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन

सदस्यों के पास भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/कम्पनी के रजिस्ट्रार एव

शेयर अन्तरण एजेंट अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड (इसके बाद 'आरटीए' सन्दर्भित)

के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य कृपया ध्यान दें कि एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट

2020–21 कम्पनी की वेबसाइट www.buckingham.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात

मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्चचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://www.mse.in/ पर

क) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते को

पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि

https://www.alankit.com पर क्लिक करके अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एव

शेयर अन्तरण एजेंट अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड (इसके बाद 'आरटीए

सन्दर्भित) के पास rta@alankit.com पर ई-मेल भेजकर इसे अपडेट करा लें

झ) डीमैट मोड शेयर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.buckingham.in,

स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्चचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट

https://www.mse.in/ और एनएसडीएल की वेबसाइट evoting@nsdl.co.in पर

आगे यह सूचना दी जाती है कि यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम,

2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधान

और विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपने

मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा उपलब्ध करा रही है तथा एनएसडीएल द्वारा रिमोट -वोटिंग के माध्यम से साधारण और विशेष व्यवसायों का लेन-देन तथा एजीएम मे

कट-ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 को शेयर रखने वाले सदस्य

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग

सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य व्यवसाय पर

इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 27

सितंबर, 2021 को सुबह 9 बजे से बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को शाम 5.00 बजे

के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डाल

सकते हैं। वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे

एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के

पात्र नहीं होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से

बुधवार, 22 सितंबर, 2021 से गुरुवार, 30 सितंबर, 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

कंपनी ने ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए मेसर्स

वी कुमार एंड एसोसिएट्स के प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव श्री विवेक कुमार को स्क्रूटिनाइजर

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड

खण्ड में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for members तथा

e-voting user manual for members का संदर्भ ले सकते हैं या निम्नलिखित टोल फ्री

नंबरः 1800–222–990 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित

किसी और शिकायत के लिए, सदस्य निम्नलिखित पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं:

एजीएम में मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

(ii) कट-ऑफ तिथि को भौतिक या डीमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले कंपनी

पंजीकृत/अपडेट करा लें जिनके पास उनके डीमैट खाते प्रबंधित हैं।

नहीं कराये हैं वे कृपया अपने ई-मेल पते उन डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ

ई-मेल पते पंजीकृत∕अपडेट करने की रीति

वोटिंग की जा सकती है। सदस्य कृपया ध्यान दें :

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी विज्ञा. सं. जे.एस.वी. (2020-21)/368

स्थान : नई दिल्ली

বিখি: 6.9.2021

(आर. के. कौशिक) कार्यपालक अभियंता (एसडीडब्ल्यू)-IV

शापेलाइन ब्राडकास्ट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 37, द्वितीय मंजिल, रानी झाँसी रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली-110055 ई-मेलः sharplinebroadcastlimited@gmail.com, वेबसाइटः www.sharplinebroadcast.in सीआईएन: L22100DL1990PLCO39464

दूरभाष: 011-23524610 रतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक पंजीकृत कार्यालयः 37, द्वितीय मंजिल, रानी झाँसी रोड, मोतिया खान, पहाड्गंज, दिल्ली-110055 में

वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को 2.00 बजे अप. आयोजित की जायेगी जिसमें कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) तथा सेबी द्वारा जारी सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, सर्क्युलर नं 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020, सर्क्युलर नं.20/2020 तिथि 5 मई, 2020, सर्क्युलर नं 02/2021 तिथि 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित सेबी सर्क्युलर तिथि 12 मई, 2020 तथा लाग् होने वाले अन्य सर्क्युलर्स के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों (सामृहिक रूप से सर्क्युलर्स विदित) के अनुपालन में एजीएम की सूचना में वर्णित

ग्नर्षिक रिपोर्ट 2020–21 के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रानिक पद्धति से केवल उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कम्पनी/कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड (यहां के बाद ''आरटीए'' वर्णित) के पास गंजीकृत हैं। जिन सदस्यों के ईमेल पंजीकृत नहीं हैं, वे ध्यान रखें कि सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 कम्पनी की वेबसाईट https://sharplinebroadcast.in, स्टॉक एक्सचैंज अर्थात् मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट https://www.msei.in पर

ईमेल पते के पंजीकरण/अपडैटिंग का तरीकाः

 भौतिक पद्धित में शेयर धारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने कम्पनी में अपने ईमेल पते पंजीकृत/ अद्यतन नहीं कराये हों, से आग्रह है कि अपने फोलियो नम्बर के विवरणों तथा पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए http://www.skylinerta.com/ subnit document to rta php पर क्लिक पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड (इसके बाद 'आरटीए' वर्णित) के पास compliances@skylinerta.com अथवा info@skylinerta.com पर अनुरोध भेजकर

ख) डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों/ जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, से आग्रह है कि उस डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत/ अद्यतन कराएं जिनके पास उनकी डिमैट खाता

कपया ध्यान रहे कि उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट https://sharplinebroadcast in तथा स्टॉक एक्सचैंज अर्थात मेटोपॉलिटन स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमि. की वेबसाईट www.msei.in तथा साथ ही एनएसडीएल की वेबसाईट evoting@nsdl.co.in

कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित के नियम 20 तथा विनियमन, 2015 के पास पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है तथा सचना में वर्णित साधारण व्यवसायों को एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

सदस्यगण निम्नलिखित का ध्यान रखें: i) कट-ऑफ तिथि अर्थात बंधवार. 22 सितम्बर. 2021 को शेयर धारित करने वाले सदस्य नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग अवधि रविवार, 26 सितम्बर, 2021 को 9.00 बजे अप. से मंगलवार, 28

सितम्बर, 2021 के 5.00 बजे अप. तक जारी रहेगी। i) कट-ऑफ तिथि को भौतिक या इलेक्टॉनिक पद्धित में शेयर धारित करने वाले सदस्य रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक रूप से मतदान कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान किये हों, वे एजीएम में शामिल होने के लिये योग्य होंगे किन्तु एजीएम में मतदान के लिये योग्य नहीं होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किये हों, वे एजीएम में मतदान कर सकते हैं।

वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 18 सितम्बर, 2021 से बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस सहित)

विच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये कम्पनी ने श्री विवेक कुमार, कार्यरत कम्पनी सचिव मै. वी कुमार एंड एसोसिएट्स को पर्यवेक्षक नियुक्त

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये सदस्य 011-23524610, ई-मेल आईडी: sharplineproadcastlimited@gmail.com पर कम्पनी या कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट्स . स्काइलाइन फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के कार्यालय, डी-153ए, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–I, नई दिल्ली–110020, सम्पर्क विवरणः टेलीः +011–40450193 से 197 एवं 26812682-83 पर सम्पर्क कर सकते हैं या ई-मेल आईडी: compliances@skyinerta.com पर ई-मेल अनुरोध भेजें।

बोर्ड के आदेश रं णार्पलाइन बॉडकास्ट लिमिटेड के लिये तिथि: 6.9.2021 स्थानः दिल्ली हस्ता./ नामः संजीव कुमार झा DIN: 02840583

 बीआरबीएनएमपीएल, शालबनी में आवासीय क्वार्टरों में वाटर प्रिफेंग कार्य, निविदा सं 010 / साल / एमएमडी-सिविल / 2021-22 [अनुमानित लागत- ₹ 92,69,307.00] बीआरबीएनएमपीएल, शालबनी में एफ्ल्एंट ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन और रखरखाव अनुबंध

उपरोक्त सभी निविदाओं को जमा करने की अंतिम तिथि 08.10.2021 को 11:30 बजे हैं।

निविदा दस्तावेजों और अन्य विवरणों को डाउनलोड करने के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट

जायेगी एवं दिनांक 11/09/2021 को शाम 4 बजे खोली जायेगी।

| क्रमांक | कार्य का नाम | सामग्री | कुल अनुमानित लागत | निविदा प्रपत्र का मूल्य | कार्य होने क अनुमानित समय |
|---------|--|---------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | सुशील के दरवाजे से अंगद के दरवाजे तक मिट्टी नाली व इन्टरलाकिंग कार्य। | 331077 | 388166 | 500 | 7 दिन |
| 2 | पप्पू के मकान से बब्लू के मकान तक मिट्टी नाली व इन्टरलाकिंग कार्य। | 105373 | 227054 | 500 | 7 दिन |
| 3 | दिवारी के मकान से रामसिंह के मकान तक मिट्टी नाली व इन्टरलाकिंग कार्य। | 198565 | 236516 | 500 | 7 दिन |
| 4 | रावेन्द्र के मकान से आलोक के मकान तक मिट्टी नाली व इन्टरलाकिंग कार्य। | 339529 | 398387 | 500 | 7 दिन |

CAPITAL INDIA

कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN): L74899DL1994PLC128577

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, डीएलएफ केंद्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन नंबर 011-49546000 कॉर्पोरेट कार्यालय: ए-1402, एक बीकेसी, 14वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई-400051 | फोन नंबर 022-45036000 वेबसाइट: www.capitalindia.com | ईमेल आईडी: secretarial@capitalindia.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो-विजुअत माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित होने वांसी 27 वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग पर जानकारी की सूचना

लदद्वारा सचित किया जाता है कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की 27वीं (सताइसवीं) वार्षिक साधारण बैठक (''एजीएम'') एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार व्यापार के लेन-देन के लिए वीसी/ओएबीएम के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बने नियमों और परिएत्र सं. 14/2020, दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिएत्र सं. 20/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र नं, 02/2021 दिनांक 5 मई, 2020 और परिपत्र नं, 02/2021, दिनांक 13 जनवरी 2021 (समग्र रूप से 'एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सुचीबद्ध देवताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''स्चीवर्ध विनियम'') और भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपन्न सं SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 ('समग्र रूप से ''परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और समय-समय जारी हुए अनुसार एसीए और सेवी (समग्र रूप से 'परिपत्रों' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी ऐसे अन्य लागू परिपत्रों के अनुपालन में मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 को सुबह 10.30 बजे आयोजित की

कंपनी के बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात् दूसरी मॉजल, डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 माना जाएगा। एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में सदस्यों की भौतिक उपस्थित की एजीएम में आवश्यकता नहीं है और बीसी/ओएबीएम द्वारा एजीए में उपस्थित अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम को पूरा करने के लिए की जाएगी और सदस्यों द्वारा प्रॉक्सियों की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। कंपनी ने बीसी/ओएबीएम और एजीएम के दौरान इंस्टा पॉल के माध्यम से ई-बोटिंग द्वारा एजीएम मे भाग लेने के लिए रिमोट ई-बोटिंग द्वारा बोटिंग के लिए सुविधा देने के लिए केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर इस्तांतरण एजेंट ("केफिनटेक" या "आरटीए"/") को नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उसमें अंकेक्षित वित्तीय विवरण के सहित वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, अंकेक्षण रिपोर्ट

बोर्ड की रिपोर्ट सहित सभी परिशिष्ट उन सभी सदस्यों को इलैक्ट्रानिक मोड में 06 सितंबर, 2021 को सदस्यों को भेजी जा चुकी है जिनके मेल कंपनी/आरटीए या उनके संबंधित डिपोजिटरीज के साथ रजिस्टर हैं। हालाँकि, आरटीए या कंपनी को उनके फोलियो नं./क्लाइंट आईडी व डीपी आईडी बताते हुए विशेष अनुरोध करते हुए दस्तावेजों/वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां प्राप्त करने के लिए सदस्यों के लिए उपलब्ध है। ये सभी दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.capitalindia.com, केफिन की वेबसाइट www.kfintech.com, बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और पर भी उपलब्ध हैं।

एजीएम में रिमोट ई-बोटिंग और ई-बोटिंग

समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 और सेबी परिपत्र संख्या SEBUHO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242. दिनांक 9 दिसंबर 2020. के अनुसार सदस्यों को निर्धारित सभी प्रस्तावों पर केफिनटेक द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से एजीएम के नोटिस मेंइलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना बोट डालने की सुविधा एजीएम की सूचना में प्रदान की जाती है।

सदस्यों को एतदद्वारा सृचित किया जाता है कि : रिमोट ई-बोटिंग अवधि की शरुआत 25 सिलंबर, 2021 को सबह 9.00 (IST) होगी और 27 सिलंबर, 2021 को शाम 5.00 (IST) पर समाप्त होगी। उक्त रिमोट ई-वोटिंग मॉडयुल इसके बाद वोटिंग के लिए बंद कर दिए जाएंगे। सदस्य द्वारा एक बार वोट डाले जाने पर, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएग

कंपनी के सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ डेट 21 सितंबर, 2021 तक डिपोजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर या सदस्यों के रजिस्टर में प्रदर्शित हैं रिमोट बोटिंग के साथ-साथ एजीएम में वोटिंग की सुविधा पाने के पात्र होंगे।

एजीएम की सचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बनने वाले और कंपनी के शेयर पाने वाले और कट-ऑफ डेट अर्थात 2। सितंबर, 2021 तक शेयर रखने वाले व्यक्ति से वीसी/ओएबीएम सविधा के द्वारा एजीएम में भाग लेने के लिए रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान इंस्टा पोल द्वारा ई-बोटिंग द्वारा बोट डालने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए एजीएम की सूचना का संदर्भ लेने का अनुरोध हैं। कट-ऑफ डेट तक सदस्य न होने वाले सदस्य एजीएम की सूचना को जानकारी के रूप में देखें।

एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपने बोट डालने वाले सदस्य बीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन दोबारा अपने बोट डालने के डकदार नहीं होंगे। बीसी/ओएबीएम सुविधा के द्वारा एजीएम में मीजुद होने वाले सदस्य और रिमोट ई-बोटिंग द्वारा प्रस्तावों पर अपने बोट नहीं डाले हैं और ऐसा करने से बाधित नहीं है एजीएम के दौरान ई-बोटिंग सिस्टम के द्वारा अपने वोट डालने के योग्य हों। सदस्य केवल एक ही माध्यम द्वारा अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट

एजीएम की सुचना में वर्णित सभी नोट्स को भवानपूर्वक पढ़ने का अनुरोध है और विशेष रूप से एजीएम ये जुड़ने और रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई-बोटिंग के द्वारा बोट डालने का तरीके पर ध्यान दें।

कंपनी के सदस्यों के रिजस्टर और शेयर इस्तांतरण पुस्तिकाए 18 सितंबर, 2021 से 28 मितंबर, 2021 (दोनों दिन शमिल) तक एजीएम के लिए और 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इक्किटी शेयर पर अंतिम लांभाश, यदि एजीएम में भोषित होता है, के लिए सदस्यों की योग्यता निर्धारित करने के लिए बंद रहेंगी। लाभांश उन्हीं सदस्यों को देव होगा जिनके नाम 17 सितंबर 2021 ("**'रिकॉर्ड डेट"**) तक सदस्यों के रजिस्टर में प्रदर्शित होंगे। इलैक्टानिक फॉर्म में आयोजित शेयरों के संबंध में लाभांश उन व्यक्तियों को जिनके नाम डिपोजिटरीज के रिकॉर्ड में 17 सितंबर, 2021 तक लाभार्थी स्वामियों के अनसार प्रदर्शित

साभांश संबंधित जानकारी : सदस्य ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 (1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी) द्वारा संशोधित अनुसार आयकर अधिनियम. 1961 में परिवर्तनों और वित्त अधिनियम. 2021 (01 जुलाई, 2021 से प्रभावी) के अनुपालन में, लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य हो जाएगी और कंपनी को निर्धारित दर्रो पर शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान कनने के लिए समय पर स्त्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता होगी। इस संबंध में विस्तृत ई-मेल संचार उन सभी सदस्यों को अलग से भेजा जाएगा जिनके मेल पते कंपनी/आस्टीए/डिपोजिटरीज के साथ पंजीकृत हैं, साथ ही टीडीएस कटीती के लिए विस्तृत अनुपालकता और प्रक्रिया और दावों छूट, यदि वार्षिक साधारण बैठक में कंपनी द्वारा उसकी योषणा पर कंपनी द्वारा चुकता किए जाने के लिए प्रस्तावित लाभांश लाभांश की सचना दी जाएगी।

बक्ता पंजीकरण : बैठक के दौरान बोलने के इच्छुक व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए एजीएम के लिए वक्ता के रूप में स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं। वे https:emeetings.kfintech.com पर जा सकते हैं और केफिनटेक से प्राप्त ई-मेल में दिए गए युजर आईडी व पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन पर,''स्पीकर रजिस्ट्रेशन' चुनें जो 23 सितंबर, 2021 को सुबह 9,00 बजे से खुलेगा और 24 सितंबर 2021, को शाम 5.00 बजे बंद होगा। सदस्यों को बैठक से पहले क्यु नंबर दिया जाएगा। कंपनी को केवल उन सदस्यों को वक्ता को प्रतिबंध करने का अधिकार है जो एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर स्वयं को रजिस्टर किया है। भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई-मेल को रजिस्टर/अपडेट नहीं किया है

से <u>einward.ris@klintech.com</u> पर आरटीए, को लिखकर अपने ई-मेल अपडेट करने का अनुरोध है या फोलियों नं., सदस्य के नाम व पते वर्णित हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैनड प्रति (आगे व पीछे), पैन कार्ड की रूव सरपापित प्रति, पते के समर्थन में किसी दस्तावेज (हाइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि) की स्व सत्यापित प्रति के साथ कंपनी को Secretarial@capitalindia.com भेज संकते हैं। गैर भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से संबंधित डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई-मेल परे रजिस्टर/अपडेट करने का अनुरोध है।

मैसर्स अरूण गुप्ता व एसोसिएट्स, कंपनी सचिवीय श्री अरूण क्मार गुप्ता (सीओपी : 8003) को निष्यक्ष व पारदर्शी तरीकं से ई-वोटिंग प्रक्रिया (एजीएम के दौरान वोट डालने सहित) जांच करने के जिलए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम अथयक्ष द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद या लिखित में प्राधिकत व्यक्ति को देने के बाद कंपनी की वेबसाइट <u>www.capitalindia.com</u> पर रखे जाएंगे। परिणाम श्रीएसई लिमिटेड या स्टॉक एक्सचेंज की जडां

कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं पर भी जमा किए जाएंगे। इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी पूछताछ/या शिकायत के मामले में, सदस्य अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज) और https:evoting klintech.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध ई-बोटिंग युजर मैनुअल को संदर्भ ले सकते हैं वा श्री नवीन मुथेल्या से <u>evoting@kfintech.com</u> पर संपर्क करें वा केफिनटेक टॉल फ्री नं. 1-800-309 4001 पर किसी भी

> कृते कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड रचित मल्होत्रा कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

शिखर सम्मेलन नौ को, बैठक में आतंकवाद का मुद्दा भी उठेगा

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 6 सितंबर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पांच देशों के समृह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। डिजिटल तरीके से आयोजित होने वाली इस बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति पर व्यापक रूप से चर्चा होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भी शामिल होंगे। ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) में दनिया के पांच सबसे बड़े विकासशील देश हैं. जो वैश्विक आबादी के 41 फीसद जनसंख्या वाले

इस बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति पर व्यापक रूप से चर्चा होने की संभावना है। विदेश

मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2021 में ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौ सितंबर को डिजिटल प्रारूप में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह दुसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले 2016 में उन्होंने गोवा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस साल ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ है। इस बार शिखर सम्मेलन का विषय है- निरंतरता, समेकन और आम सहमति की खातिर अंतर-ब्रिक्स सहयोग।

भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है। इनमें बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, डिजिटल और तकनीकी उपयोग तथा लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढावा देना शामिल हैं। इन विषयों के अलावा, नेतागण कोविड -19 महामारी का प्रभाव और अन्य मौजदा मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतरने का अभ्यास करेगा वायुसेना का विमान

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 6 सितंबर।

> भारतीय वायुसेना का एक विमान इस सप्ताह राजस्थान के बाडमेर में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन स्थिति में उतरने (आपात लैंडिंग) का अभ्यास करेगा। इस विमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सवार होंगे। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों

मुताबिक, दोनों मंत्री इस सप्ताह बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3.5 किलोमीटर लंबी पट्टी का उद्घाटन करेंगे,

लड़ाकू विमानों और अन्य विमानों की आपात लैंडिंग के लिए तैयार है।

का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है,

जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग के लिए किया जाएगा।

अक्तूबर 2017 में, वायुसेना के लड़ाकू जेट और परिवहन विमानों ने लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग का अभ्यास किया था, ताकि यह दिखाया जा सके कि ऐसे राजमार्गों का उपयोग वायुसेना विमानों को आपात स्थिति में उतारने के लिए किया जा सकता है।

लखनऊ-

प्रदश

आगरा एक्सप्रेसवे

सरकार के अधीन

राष्ट्रीय राजमार्ग

पाधिक रण

(एनएचएआई)

के अधिकारियों ने

बाड़मेर में राष्ट्रीय

राजमार्ग पर हवाई

करने के लिए

विकसित

भार ताीय

आता है।

'इस विमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सवार होंगे

'देश भर में 12 राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार ल्लिए के जा रहे हैं, जहां आपात स्थिति में वायुसेना के विमानों के लिए उन्हें हवाई पट्टी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके

क्योंकि यह वायुसेना के वायुसेना अधिकारियों के साथ समन्वय कर काम किया। अधिकारियों के मुताबिक, बाड़मेर में उपरोक्त इस राजमार्ग के अलावा देश भर में कम से कम 12 राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार किए जा रहे हैं, ताकि आपात उन्होंने कहा कि यह भारत स्थिति में वायुसेना के विमानों द्वारा उन्हें हवाई पट्टी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।

RELIGARE

रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1984PLC146935 पंजीकृत कार्यालय: पहली मंजिल, पी-14, 45/90, पी-व्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली -110001 फोन: +91-11-4002 1400 | फैक्स नंबर: +91-11-4002 1401

वेबसाइट: www.religare.com | ईमेल: Investorsservices@religare.com 37वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग की जानकारी तथा बुक क्लोजर की सूचना एतद्वारा सुचित किया जाता है कि एजीएम की सुचना दिनांक 28 अगस्त, 2021 में निर्धारित व्यवसायों के लेनदेन के लिए रेलिगे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (''कम्पनी'') की 37वीं वार्षिक आम बैठक (इसके पश्चात ''एजीएम'' कहा जायेगा) वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य दृश्य श्रव्य साधनों (''वीसी/ओएवीएम'') के माध्यम से बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को 4.00 बजे अप. (भा.मा.स.) पर आयोजित

कंपनी ने एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्टैंडअलोन और समेकित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों के पास भेज दी है जिनके ई–मेल पते भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (''सेबी'') द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI / HO / CFD / CMD1/CIR /P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 तथा परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के साथ पठित कॉपोरेंट मामले मंत्रालय (''एमसीए'' द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020,17/2020,20/2020 और 02/2021 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल 2020, अप्रैल 13,2020, मई 5,2020 और जनवरी 13,2021 (बाद में सामृहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) (इसके बाद सामृहिक रूप से परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुसार कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर अन्तरण एजेंट या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ के साथ वार्षिक रिपोर्ट की प्रति और एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.religare.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक

एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड क्रमशः www.nseindia.com और www.bseindia.com पर तथा कंपर्न के रजिस्ट्रार और अन्तरण एजेंट की वेबसाइट अर्थात केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (''केफिनटेक'') की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध है । ई-मेल के माध्यम से एजीएम की सचना का प्रेषण सोमवार. 6 सितंबर.2021 को पुरा कर लिया गया है। सदस्यों को केफिनटेक द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाती है

सदस्यों से अनुरोध है कि वे https://emeetings.kfintech.com पर जाएं और उन्हें प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों के लॉगिन एक्सेस करें।

रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग हेतु निर्देश

i. समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 (''अधिनियम'') और सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 44 (''सचीबद्धत विनियम'') के अनुसार सदस्यों को केफिनटेक द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (''रिमोट ई-वोटिंग'') का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। बुधवार, 22 सितंबर, 2021 (''कट–ऑफ तिथि'') तक भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य https://evoting.kfintech.com पर केफिनटेक की ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों वे रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा ग्रहण करने

ii. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शक्रवार, 24 सितंबर, 2021 (अपराह्न 1.00 बजे भा.मा.स.) से शरू होगी और मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 (5:00 अपराह्न भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके बाद केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा एक बार किसी संकल्प पर सदस्य द्वारा वोट कर दिए जाने के बाद, सदस्य इसे बाद में संशोधित नहीं कर सकता है।

iii. डीमैटरियलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सहित वोटिंग की रीति सहित सचना और निर्देश एजीएम की सचना में प्रावधानित है और साथ-साथ केफिनटेक द्वारा सदस्यों के पास भेजे गए ईमेल में भी प्रदान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद और कट-ऑफ तिथि से पहले शेयर अर्जित करने वाले सदस्य कंपनी व

investorservices@religare.com पर या केफिनटेक को einward.ris@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी

iv. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य लेकिन जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, किन्तु वे एजीएम में ई-वोटिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। v. एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.religare.com पर भी उपलब्ध है। कृपया केफिनटेक की वेबसाइट यानी

https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए 'ई-वोटिंग यूजर मैनुअल' देखें। कोई भी सदस्य जिसके पास ई-वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न/शिकायत है, श्री एसवी राजू, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद 500032 से 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं या einward.ris@kfintech.com पर ईमेल करें। vi. सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि तक कंपनी की कुल वोटिंग पूंजी में उनके शेयरों के पेड-अप वैल्यू के अनुपात मे होंगे। कंपनी द्वारा पिछले दो वर्षों से 0.01% 2,50,00,000 गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय अधिमानी शेयरों (''अधिमानी शेयरों ''

पर 10/- रुपये (दस रुपये) प्रत्येक के अंकित मूल्य के लाभांश का भुगतान न करने के कारण, कट-ऑफ तिथि तक कंपनी के पूर्वोक्त अधिमानी शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों को भी उनके द्वारा धारित अधिमानी शेयरों के अनुपात में एजीएम नोटिस में उल्लिखित संकल्प पर वोट देने का अधिकार होगा। भौतिक और डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी / रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट या संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे ई-मेल के माध्यम से एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने तथा/अथवा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में उपस्थित होने और वहाँ ई-वोटिंग

हेतु लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx का उपयोग करके उसमें निर्देशित प्रक्रिया का अनुपालन करके अथवा ई-मेल पता, मोबाइल नम्बर, पैन की स्वप्रमाणित प्रति तथा इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में क्लाइंट मास्टर आईडी और भौतिक धारिता के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए ई-मेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल निवेदन भेजकर आरटीए के साथ अपने ई-मेल आईडी अस्थायी रूप से पंजीकृत कर

ईमेल पतों के स्थायी पंजीकरण/अपडेशन के लिए, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ और भौतिक रूप से धारित शेयरों के लिए कंपनी के रजिस्टार एवं शेयर अन्तरण एजेंट यानी केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के पास अनुरोध भेज सकते हैं।

इसके अलावा, शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि एजीएम में शामिल होने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और वोट डालने के

यह भी सचित किया जाता है कि सुचीबद्धता विनियमों के नियमों और विनियम 42 के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम के प्रयोजन के लिए सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 से बुधवार, 29 सितंबर,2021 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

तरीके आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए एजीएम नोटिस में निर्धारित टिप्पणियों को ध्यान से पढ़ें। निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

कृते रेलीगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड

रीना जयारा

दिनांक : 7 सितम्बर, 2021

www.readwhere.com

फोन नंबर +91 22 24994545, +91 22 24994559

के रूप में नियुक्त किया है।

तिथि : 06.09.2021 स्थान : दिल्ली

सुलभ दीक्षित पूर्ण कालिक निदेशक DIN: 07070194

बोर्ड के आदेशानसार

बिकंघम इंडस्टीज लिमिटेड के लिए

दिनांक : 6 सितंबर, 2021

स्थान : नई दिल्ली

स्पष्टीकरण के लिए संपर्क करें।

स्थान : नई दिल्ली

कम्पनी सचिव